

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2013—वैशाख 27, शक 1935

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 3 मई 2013

क्र. 28-2013.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी, 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन. पी. आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :—

### अनुसूची

क्रम संख्या (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम (4)	प्रशासनिक क्षेत्र (5)
1	नगर निगम रतलाम जोन शहरी क्षेत्र रतलाम	उपायुक्त नगर निगम	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर निगम रतलाम.	नगर निगम रतलाम के जोन शहरी क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
2	तहसील पिपलौदा	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील पिपलौदा.	तहसील पिपलौदा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/ जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
6	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	सांविधिक नगरों (नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद) के अंतर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान : रतलाम

दिनांक :

राजीव दुबे, जिलाध्यक्ष एवं उपसचिव/अति. सचिव एवं  
जिला रजिस्ट्रार (एन. पी. आर.).

Ratlam, the 3rd May 2013

No. 28-Census-2013.—In exercise of the powers conferred *vide* GAD, order No. F. 10-1-2012-2-A(3), dated 16th February, 2012 published in Madhya Pradesh Gazette, dated 17th February, 2012 & under rules 5, 16 & 18 of the Citizenship Act, 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the following officers are appointed as the Registers for preparation of National Population Register with NPR designations mentioned in Col. no. (4) it take or aid in or supervise the NPR operation within the Administrative area specified against each of them in Col. no. (5) of the Schedule :—

#### SCHEDULE

Sl. No. (1)	Administrative Unit (2)	Designation (3)	To be appointed as (4)	Jurisdiction (5)
1	Municipal Corporation Ratlam	Deputy Commissioner Municipal Corporation	Sub-District Registrar Ratlam Municipal Corporation.	Entire Ratlam urban area in respective zone of Ratlam Municipal Corporation.
2.	Tahsil Piploda	Tahsildar	Sub-District Registrar, Piploda	Entire Tahsil Piploda Rural (excluding urban area).
	Tahsil Jaora	Tahsildar	Sub-District Registrar, Jaora.	Entire Tahsil Jaora Rural (excluding urban area).
	Tahsil Alot	Tahsildar	Sub-District Registrar, Alot.	Entire Tahsil Alot Rural (excluding urban area).
	Tahsil Tal	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tal.	Entire Tahsil Tal Rural (excluding urban area).
	Tahsil Sailana	Tahsildar	Sub-District Registrar, Sailana.	Entire Tahsil Sailana (excluding urban area).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tahsil Bajna	Tahsildar	Sub-District Registrar, Bajna.	Entire Tahsil Bajna Rural (excluding urban area).
	Tahsil Raoti	Tahsildar	Sub-District Registrar, Raoti.	Entire Tahsil Raoti Rural (excluding urban area).
	Tahsil Ratlam Rural	Tahsildar	Sub-District Registrar, Tahsil Ratlam.	Entire Tahsil Ratlam Rural (excluding urban area).
	Tahsil Ratlam (Railway colony)	Tahsildar	Sub-District Registrar, Ratlam Railway colony.	Tahsil Ratlam (Railway colony) jurisdiction under entire area of railway (excluding urban area).
3	Municipality, Jaora	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Municipality, Jaora.	Entire Urban area of Jaora Municipality.
4.	Nagar Parishad Piploda	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Parishad Piploda.	Entire Urban area of Piploda Nagar Parishad.
	Nagar Parishad Badawada	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Parishad Badawada.	Entire Urban area of Badawada Nagar Parishad.
	Nagar Parishad Alote	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Parishad Alot.	Entire Urban area of Alot Nagar Parishad.
	Nagar Parishad Tal	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Parishad Tal.	Entire Urban area of Tal Nagar Parishad.
	Nagar Parishad Sailana	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Parishad Sailana	Entire Urban area of Sailana Nagar Parishad.
	Nagar Parishad Namli	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Parishad Namli	Entire Urban area of Namli Nagar Parishad.
	Nagar Parishad Dhamnod	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Nagar Parishad Dhamnod	Entire Urban area of Dhamnod Nagar Parishad.
5.	Respective Village(s)	Patwari	Local Registrar	Entire area of respective Village/ Census Town/Out Growth.
6.	Respective Ward(s)	Revenue Inspector/ Health Inspector/ Sanitary Inspector/ Asstt. Revenue Inspector/ Tax Collector.	Local Registrar	Entire area in respective Ward of Statutory Towns (Municipal Corporations/ Municipalities/Nagar Parishad).

The Sub-District Registrar to appoint Local Registrars at their level as per Govt. Order No. F-10-1-2012-2-A(3), dated 16th February 2012.

Place : Ratlam

Date :

RAJEEV DUBEY, Collector & Dy. Secretary/Addl. Secretary  
and District Registrar (NPR).